

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 527]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर 2010—आश्विन 7, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2010

फा. क्र. 17 (ई)-160-इक्कीस-ब (दो)10.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-20(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, शाजापुर जिले में पदस्थ, अपर कलेक्टर, को शाजापुर जिले हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.